



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 501 राँची, सोमवार

14 मई, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

11 मई, 2018

संख्या- 16/थाना-02/2018-2601-- संथाल परगना प्रमण्डल अंतर्गत देवघर जिला में पूर्व से कार्यरत मधुपुर पुलिस अनुमण्डल के कार्यक्षेत्र की विशालता के कारण अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था के संधारण एवं कार्यों के निष्पादन में हो रही परेशानियों के मद्देनजर तथा गुमला जिलान्तर्गत कामडारा थाना के पश्चिम-दक्षिण सीमान्त एवं दुर्गम क्षेत्र में उग्रवादी/अपराधी संगठनों के गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु उक्त जिलों के लिए नये पुलिस अनुमण्डल तथा थाना का सृजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. नया पुलिस अनुमण्डल:-

क्र०	जिला	प्रशा० ईकाई	मुख्यालय	प्रस्तावित कार्य क्षेत्र	वर्तमान नियंत्री कार्यालय
1.	देवघर	सारठ पुलिस अनुमण्डल	सारठ	थाना-सारठ, चितरा एवं पालाजोरी	सभी थाने सम्प्रति मधुपुर पुलिस अनुमण्डल के अंतर्गत कार्यरत।

नया थाना:-

क्र०	थाना एवं ओ०पी० का नाम/श्रेणी	वर्तमान थाना	प्रस्तावित थाना का कार्यक्षेत्र	
			पंचायत का नाम	गाँव का नाम
1.	कुरकुरा थाना (गुमला जिला) "ग्रामीण नक्सल ए०"	कामडारा थाना	कुलबुरु	खिजरी, कुलबुरु, गुरजनडीह, कुरकुरा, ईचागुट्ट एवं बेतरकेरा।
			रामपुर	टाटी, जामडीह, रामपुर, खम्भुवा, पाण्डुलोया एवं लोयकेल।

2. उक्त पुलिस अनुमण्डल एवं थाना के गठन हेतु आवश्यक पदों का सृजन एवं वाहनों के क्रय संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन कालांतर में प्राप्त किया जाएगा ।
3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।
